



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1940 (श10)
(सं0 पटना 240) पटना, सोमवार, 18 फरवरी 2019

परिवहन विभाग

अधिसूचना

15 फरवरी 2019

सं0 05/स्था0-02/2017-1384—जिलाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 07.01.2017 को सम्पन्न बैठक में श्री सन्नी कुमार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राम, परिचारी मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर (मु0 कासिम बाजार, मोकवीरा, थाना—कासिम बाजार, पो0—एवं जिला—मुंगेर) को समूह 'ग' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी। इस अनुशंसा के आलोक में श्री सन्नी कुमार, पुत्र—स्व0 सुरेन्द्र राम, परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर को बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं शर्त) नियमावली, 2013 के संगत प्रावधानों के आलोक में समूह 'ग' के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध लेवल-2 (अपुनरीक्षित पे बैंड रू0—5200—20200 ग्रेड पे0 रू0—1900/—) में अनुमान्य भतों सहित, अस्थायी रूप से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति किया जाता है :-

2. स्व0 सुरेन्द्र राम, तत्कालीन परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री सन्नी कुमार पर होगा।

3. श्री सन्नी कुमार, पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राम अपना स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र दस दिनों के अन्दर असैनिक शल्य चिकित्सक से प्राप्त कर परिवहन विभाग मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित समय—सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

4. योगदान करने हेतु श्री कुमार को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा।

6. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी प्रकार की गलत सूचना/प्रमाण-पत्र/जालसाजी/ धोखाधड़ी के आधार पर नौकरी प्राप्त की गई है तो श्री कुमार को अविलम्ब सेवा मुक्त करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
राज्य परिवहन आयुक्त।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 240-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>